



बिशन की दिलेरी

कठिन शब्द

1. पगडंडी
2. चक्कर
3. सीढ़ीनुमा
4. चुपचाप
5. फसल
6. सुनहरे
7. तीतर
8. शिकारी
9. घायल
10. स्वेटर



11. कंटीले

शब्दार्थ

1. तड़के - बहुत सुबह
2. कीटनाशक - कीड़े मारने वाली
3. ज़ख्मी - घायल
4. कामयाब - सफल
5. आहाट - आवाज़
6. संतोष - प्रसन्नता

प्रश्नो के उत्तर लिखिए

प्रश्न 1) कर्नल दत्ता की पत्नी किस चीज़ में बिशन की मदद करती थी ?

उत्तर- कर्नल दत्ता की पत्नी बिशन को पढ़ाई में मदद करती थी।

प्रश्न 2) गोलियाँ कौन चला रहे थे और क्यों ?

उत्तर - शिकारी गोलियाँ चला रहे थे।

गेहूँ के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते थे। इन तीतरों को मारने के लिए शिकारी गोलियाँ चला रहे थे।

प्रश्न 3) बिशन ने खेतों के छोटे रास्ते से जाना क्यों तय किया ?

उत्तर - बिशन एक घायल तीतर को लेकर भाग रहा था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया।

प्रश्न 4) कर्नल साहब ने शिकारियों को क्यों डाँटा ?

उत्तर - कर्नल साहब ने शिकारियों को डाँटा क्योंकि ये शिकारियाँ हर साल आकर बहुत से तीतर को मार डालते हैं। कुछ तीतर को ले जाते हैं और बाकी को घायल करके मरने के लिए छोड़ जाते हैं।

प्रश्न 5) क्या बिशन तीतर को बचाने में सफल हुआ?

उत्तर- हाँ बिशन तीतर को बचाने में सफल हुआ।

सर्वनाम

संज्ञा का बार-बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।

नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाँटकर लिखो ।

1. मास्टर साहब ने अप्पाराव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना । (मैं , अपना , तुम)
2. सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? (तुम)
3. सुधा ने अपनी बुआ से पूछा , पापा आपसे कितने बड़े हैं । (आप)

4. मोहन को समझ मे नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए ?
(वह)

5. विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हे चार बजे बैठक मे जाना है। (आप , वह)

रचनात्मक लेखन



तीतर के बारे मे लिखो

1. तीतर एक छोटा -सा पक्षी होता है।
2. यह कम ऊँचाई कि उड़ान ही भर पाता है।
3. इसके पंख छोटे -छोटे होते है।
4. यह झुंड मे ही देखा जाता है।
5. यह देखने मे बहुत सुंदर होता है। यह मुख्यत भूरे रंग का होता है।

रात भर बिलखते चिघाडते रहे



कठिन शब्द

1. झुंड
2. धुई
3. टोलियाँ
4. स्वाभाविक
5. हमला
6. जिम्मेदारी
7. जख्मी
8. घाव
9. दफ़्तर
10. अनुभव

बहुवचन लिखिए

1. पगडंडी - पगडंडियाँ
2. झाड़ी - झाड़ियाँ
3. टोली - टोलियाँ
4. नाला - नाले
5. मक्खी - मक्खियाँ
6. आँख - आँखे

